



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24—दिसम्बर 30, 2011 (पौष 3, 1933)

No. 52]

NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24—DECEMBER 30, 2011 (PAUSA 3, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी बफसों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 नवम्बर 2011

सं. ए-22017/1/2011-पीएमई--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के संयुक्त निदेशक और प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में कार्यरत श्री एस. बी. अय्यर, दिनांक 30 नवम्बर, 2011 (अपराह्न) को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 1 दिसम्बर 2011

सं. ए-22017/1/2011-पीएमई--श्री एस. बी. अय्यर, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को ग्रेड पे रु. 7,600/- के साथ पे बैंड-3 (रु. 15,600--39,100/-) में दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 (पूर्वाह्न) से राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री कार्यालय) के विशेष कार्याधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

2. श्री एस. बी. अय्यर की नियुक्ति राज्य मंत्री (प्रधान मंत्री कार्यालय) के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

3. श्री एस. बी. अय्यर, विशेष कार्याधिकारी के वेतन एवं भत्ते समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के वेतन निर्धारण) आदेश, 1986 के तहत होंगे।

आर. मैथिली, अवर सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 2011

सं. ए-22017/2/2011-पीएमई--राष्ट्रपति जी, गृह मंत्रालय के केन्द्रीय आशुलिपिक सचिवालय सेवा संवर्ग के निजी सचिव श्री जयरामन के. को दिनांक 01 दिसम्बर, 2011 (पूर्वाह्न) से प्रधान मंत्री के सलाहकार (राज्य मंत्री के रैंक) के निजी स्टाफ में उसी हैसियत से नियुक्त करती हैं।

2. प्रधान मंत्री के सलाहकार के निजी स्टाफ में श्री जयरामन के. की नियुक्ति प्रधान मंत्री के सलाहकार के कार्यकाल तक और उनके विवेकाधीन होगी।

आर. मैथिली, अवर सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560231, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

सं. 2/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आँकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकंदराबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिससे पदोन्नत की गई	पद जिस पर पदोन्नत की गई
	श्री/श्रीमती/कु.		
1.	अर्चना महापात्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
2.	सी. विजयकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
3.	आर. उषा देवी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
4.	शालिनी शर्मा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
5.	विजेन्द्र बुसी रेड्डी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
6.	सूरज के. आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. 8/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल, बेंगलूर में निम्नलिखित वैज्ञानिक/इंजीनियर को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 01.07.2011 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	एस. बेउला रोसे	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
2.	अमन कुमार सिन्हा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
3.	वासुगी पी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
4.	पद्मदेवी मिश्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
5.	बिजय कुमार दाई	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
6.	अरविंद वी.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
7.	अमित पुरोहित	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.डी.
8.	फरहान अहमद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
9.	जयकुमार आर.	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
10.	एन. भानु प्रकाश	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.ई.
11.	सीना सुनिल	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.एफ.
12.	बी. एन. रामकृष्ण	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.
13.	डॉ. वी. के. आनन्दन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.जी.

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 17 नवम्बर 2011

सं. 8/1(1)/2011-I--राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इसरो दूरमिति अनुवर्तन तथा आदेश संचार जाल, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.सी. के पद पर अस्थायी रूप में प्रत्येक के सामने दिए गए दिनांक के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि
	श्री/श्रीमती/कु.	
1.	विनय कुमार सिंह	03.08.2011
2.	धरवेन्द्र प्रताप यादव	08.08.2011
3.	अनु अरोरा	08.08.2011
4.	विनीत कुमार श्रीवास्तव	08.08.2011
5.	दिलीप डी.	08.08.2011
6.	बी. प्रभु नीरक्षण राव	08.08.2011
7.	रोहन दत्ता	11.08.2011
8.	सौरभ कुमार मोहन	11.08.2011

एन. पट्टाभि रामन, अवर सचिव

सं. ए-22012/01/2011-प्रशा.-IV--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2006, 2007 तथा 2008 में उत्तीर्ण होने तथा तदुपरांत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 के आदेश संख्या 6/3/2011-सीएस-I(एस) के द्वारा योजना आयोग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति जी, श्री राम विलास प्रेमी को योजना आयोग में 16.11.2011 (पूर्वाह्न) से, 9,300--34,800/- रुपए के पे बैंड + 4,800/- रुपए के ग्रेड पे में अनुभाग अधिकारी (केन्द्रीय सचिवालय सेवा), चयन सूची-2006 के रूप में नियुक्त करती हैं।

पी. सी. भारद्वाज, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 नवम्बर 2011

सं. ए-32013/2/2011-प्रशा.-3(भाग 2)--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 के का.ज्ञा. सं. 3/1/2011-सीएस-II(ए)(भाग) के द्वारा वेतन बैंड पी.बी.-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड वेतन रु. 6,600/- के वेतन बैंच में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के पद पर तदर्थ आधार पर पदोन्नत

करने तथा योजना आयोग में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप, गृह मंत्रालय, भारत के महा पंजीयक का कार्यालय के नियमित निजी सचिव, श्री बलदेव सिंह को योजना आयोग के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव के पद पर दिनांक 14.11.2011 के पूर्वाह्न से 31.03.2012 तक अथवा उन पदों को नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री बलदेव सिंह की प्रधान निजी सचिव ग्रेड पर यह नियुक्ति पूर्णतः तदर्थ आधार पर है और यह उन्हें इसी ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा संवर्ग के प्रधान निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती है।

गुलवीना बधान, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

सं. ए-12025/13/2010-प्रशासन-1--राष्ट्रपति, श्री देबाशीष बनर्जी, नियमित उपसलाहकार (उपभोक्ता उद्योग), योजना आयोग को योजना आयोग में पे बैंड-4 में रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतनमान रु. 8,700/- के वेतनमान में संयुक्त सलाहकार (औद्योगिक और अवसंरचना योजना) के पद पर प्रोन्नति के आधार पर दिनांक 29.11.2011 के पूर्वाह्न से या अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

जी. राजीव, अवर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2011

सं. ए-12025/1/2007-पार्ट-प्रशा.-I(वि.वि.)--राष्ट्रपति, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के श्री रामीसेट्टी श्रीनिवास, सहायक विधायी परामर्शी को विधि और न्याय मंत्रालय के उक्त विभाग में उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर रुपए 15,600--39,100/- के वेतन बैंड + रुपए 7,600/- के ग्रेड वेतन में दिनांक 05 अगस्त, 2011 की पूर्वाह्न से तीन माह की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तदर्थ आधार पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें उप विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के ग्रेड में नियमित नियुक्ति के लिए न तो कोई दावा करने का अधिकार प्रदान करेगी और न ही उनके द्वारा प्रदत्त तदर्थ सेवाओं की गणना इस ग्रेड में वरिष्ठता के प्रयोजनार्थ अथवा अगले उच्चतर ग्रेड में उनकी प्रोन्नति के लिए की जाएगी।

एम. आर. बीर, निदेशक (प्रशासन)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

सं. I-14012/13/2002-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जे. लोगनाथन, (रैंक-208), जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा,

2001 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में परीक्षा के आधार पर उनके नाम के सामने उल्लिखित तारीख से नियुक्त करती हैं :--

परिवीक्षाधीन आई.पी.एस. अधिकारी का नाम	जन्म की तारीख	आई.पी.एस. में नियुक्ति की तारीख
श्री जे. लोगनाथन, (रैंक : 208)	04.05.1973	20.12.2010 (पूर्वाह्न)

2. श्री जे. लोगनाथन की भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति अस्थाई एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की वास्तव स्थिति के अनुसार सम्बन्धित प्राधिकारी से आवश्यक सत्यापन की सूचना प्राप्त होने के आधार पर है।

इन्द्रजीत कौर, निदेशक (पुलिस)

नई दिल्ली-1, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

सं. 14046/37/2006-यू.टी.एस.-I--राष्ट्रपति, अरुणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम-संघ राज्य क्षेत्रों के संयुक्त संवर्ग के 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी श्री दिनेश कुमार भट्ट को अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(2क) के अनुसार तत्काल प्रभाव से स्वेच्छ से सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करती है।

ओ. एस. अशोक, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

सं. I-14012/15/2011-आई.पी.एस.-IV--राष्ट्रपति, श्री सौरभ तोलम्बिया, आई.पी.एस. (गुजरात : 2007), जिन्हें सिविल सेवा परीक्षा, 2006 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्त किया गया था, के सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर, उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए चयन होने पर दिनांक 03.12.2011 (अप्र.) से भारतीय पुलिस सेवा से उनका तकनीकी त्यागपत्र स्वीकार करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आई.पी.एस.-IV)

अंतर्राज्य परिषद सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

सं. ए-38011/5/2011-अं.रा.प.--अधिवर्षिता की आयु पूर्ण होने पर, श्री राजीव कुमार नायर, उप सचिव (सीएसएस), अंतर्राज्य-परिषद सचिवालय, गृह मंत्रालय दिनांक 30 नवम्बर, 2011 के अपराह्न से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं।

लाजपत राय गुप्ता, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

सं. 13017/36/2011-अ.भा.से.(I)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 6 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए एवं हरियाणा सरकार तथा गृह मंत्रालय की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री अनिल कुमार, भा.प्र.से. (हरियाणा : 88) की हरियाणा संवर्ग से एजीएमयूटी संवर्ग में गृह सचिव, चंडीगढ़ प्रशासन के पद पर नियुक्ति हेतु दी गई अंतर संवर्गीय प्रतिनियुक्ति को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए एतद्वारा अनुमोदन प्रदान करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

दिनांक 2 दिसम्बर 2011

सं. 13017/34/2010-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, श्री निंगथोजाम जैफरी, भा.प्र.से. (एएम : 07) को, असम-मेघालय संवर्ग से मणिपुर-त्रिपुरा संवर्ग (मणिपुर खण्ड) में पूर्वोत्तर संबंधी वर्तमान नीति के अंतर्गत एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

दिनांक 7 दिसम्बर 2011

सं. 13014/37/2011-अ.भा.से.-I--भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों की सहमति से केन्द्र सरकार, सुश्री ललितालक्ष्मी, भा.प्र.से. (तमिलनाडु : 08) को श्री सौरव पहाड़ी, भा.प्र.से. (पश्चिम बंगाल : 08) के साथ विवाह के आधार पर, तमिलनाडु संवर्ग से पश्चिम बंगाल संवर्ग में एतद्वारा स्थानान्तरित करती है।

नरेन्द्र गौतम, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

सं. 14012/02/2011-अ.भा.से.(III)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग में रखे गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को भारतीय प्रशासनिक सेवा में, उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से नियमित करती है :-

क्र. सं.	नाम	बैच	स्थायी करने की तारीख
1.	श्री ब्रह्मा देव राम तिवारी	2006	29.08.2008
2.	कविता पद्मानाभन (सुश्री)	2006	29.08.2008
3.	श्री ओम प्रकाश	2006	29.08.2008
4.	श्री प्रवीण बक्शी	2006	29.08.2008
5.	श्री पुरु गुप्ता	2006	30.08.2008

नवनीत मिश्रा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 नवम्बर 2011

सं. 3/जीए/2011--भारत सरकार ने निम्नलिखित मिशन खोला है :-

मिशन का नाम	मिशन खोलने की तारीख/महीना/वर्ष
भारत का प्रधान कौंसलावास, अटलांट (संयुक्त राज्य अमेरिका)	30 अगस्त, 2011

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, सभी राज्य सरकारों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि वे उपर्युक्त के लिए "मार्फत राजनयिक थैला अनुभाग, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली" के पते पर अपना पत्राचार करें।

सुनीत मेहता, अवर सचिव

कार्यालय उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2011

सं. डी-III/460/सीएफ-60/2009--भारत की राष्ट्रपति चेन्नई में इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री मणिक्कम रामास्वामी की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती है।

श्री मणिक्कम रामास्वामी के कौंसली क्षेत्राधिकार में चेन्नई शहर होगा, जिसका केन्द्र चेन्नई होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

सं. डी-III/460/सीएफ-17/2011--भारत के राष्ट्रपति बेंगलुरु में इथोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री साई रामकृष्ण कारुतुरी की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करती है।

श्री साई रामकृष्ण कारुतुरी के कौंसली क्षेत्राधिकार में बेंगलुरु शहर होगा, जिसका केन्द्र बेंगलुरु होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

दिनांक 1 दिसम्बर 2011

सं. डी-III/460/सीएफ-33/2011--भारत के राष्ट्रपति चेन्नई में आर्मेनिया गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री शिवकुमार ईश्वरन की नियुक्ति को 03.11.2011 के प्रभाव से दो साल की अवधि के लिए मान्यता प्रदान करती है।

श्री शिवकुमार ईश्वरन के कौंसली क्षेत्राधिकार में चेन्नई शहर होगा, जिसका केन्द्र चेन्नई होगा।

दीपक मिगलानी, उप प्रोतोकोल प्रमुख (एफ)

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

सं. ए-19011/2/2008-पीए-उनकी सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने के परिणामस्वरूप, श्री कंवर भान अरोड़ा, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, में निदेशक, 30 नवम्बर, 2011 अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

आर. सी. मीना, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 11 नवम्बर 2011

सं. 109 : (फा. सं. 19014/08/2011-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2006 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री चन्द्र शेखर को इस विभाग में दिनांक 02.11.2011 (पूर्वाह्न) से अनुभाग अधिकारी (एस एल 2/2006) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1964 के अनुसार, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में श्री चन्द्र शेखर की अनुमोदित नियमित सेवा की गणना 01 जुलाई, 2006 से की जाएगी।

3. नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में श्री चन्द्रशेखर की नियुक्ति निम्न न्यायालय मामलों के परिणाम के अधधीन होगी :

- (i) श्री सौराण्यु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में दायर ओ ए सं. 1083/2007/एम ए संख्या 1171/2007 व 2011 का एम ए
- (ii) श्री ए. के. नंदी व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा के.प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2136/2010
- (iii) श्री विकास त्रिपाठी व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा के.प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2469/2010
- (iv) श्री ए. प्रकाश व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा के.प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 1253/2009
- (v) श्री प्रदीप कुमार मण्डल बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा के. प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2584/2011 और एम ए सं. 1987/2011

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

सं. 110 : (फा. सं. 19014/07/2011-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2008 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री रघुनाथन टी. वी. को इस विभाग में दिनांक 31.10.2011 (अपराह्न) से अनुभाग अधिकारी (एस एल 2008) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1964 के अनुसार, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में श्री रघुनाथन टी. वी. की अनुमोदित नियमित सेवा की गणना 01 जुलाई, 2008 से की जाएगी।

3. नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में श्री रघुनाथन टी. वी. की नियुक्ति निम्न न्यायालय मामलों के परिणाम के अधधीन होगी :

- (i) श्री सौराण्यु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में दायर ओ ए सं. 1083/2007/एम ए संख्या 1171/2007 व 2011 का एम ए
- (ii) श्री ए. के. नंदी व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा के.प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2136/2010
- (iii) श्री विकास त्रिपाठी व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा के.प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2469/2010
- (iv) श्री ए. प्रकाश व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा के.प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 1253/2009
- (v) श्री प्रदीप कुमार मण्डल बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा के. प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2584/2011 और एम ए सं. 1987/2011

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 14 नवम्बर 2011

सं. 111 : (फा. सं. 19014/09/2011-प्रशा.-I)--राष्ट्रपति, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा, 2008 में अर्हता प्राप्त करने के आधार पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक श्री वी. गणेश कुमार, को इस विभाग में दिनांक 02.11.2011 (पूर्वाह्न) से अनुभाग अधिकारी (एस एल 2008) के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1964 के अनुसार, अनुभाग अधिकारी ग्रेड में श्री वी. गणेश कुमार की अनुमोदित नियमित सेवा की गणना 01 जुलाई, 2008 से की जाएगी।

3. नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में श्री वी. गणेश कुमार की नियुक्ति निम्न न्यायालय मामलों के परिणाम के अधधीन होगी :

- (i) श्री सौराण्यु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में दायर ओ ए सं. 1083/2007/एम ए संख्या 1171/2007 व 2011 का एम ए
- (ii) श्री ए. के. नंदी व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा के.प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2136/2010
- (iii) श्री विकास त्रिपाठी व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा के.प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2469/2010
- (iv) श्री ए. प्रकाश व अन्य बनाम भारत संघ द्वारा के.प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 1253/2009

- (v) श्री प्रदीप कुमार मण्डल बनाम भारत संघ व अन्य द्वारा, के. प्र.अ., नई दिल्ली में दायर ओ ए सं. 2584/2011 और एम ए सं. 1987/2011

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 16 नवम्बर 2011

सं. 113 : (फा. सं. ए-19011/22/2011-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री मुकेश भाट्टी, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 75011) (सेवानिवृत्त), को एच ए जी + 75,500--80,000/- रुपये के वेतनमान में तथा आयकर लोकपाल निर्देशिका, 2010 में दी गई शर्तों के अधीन दिनांक 11.11.2011 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 63 वर्ष की आयु के हो जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मुम्बई में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

दिनांक 24 नवम्बर 2011

शुद्धिपत्र

सं. 115 : (फा. सं. ए-19011/22/2011-प्रशा.-1)--राष्ट्रपति, श्री मुकेश भाट्टी, भारतीय राजस्व सेवा (आयकर : 75011) (सेवानिवृत्त), को एच ए जी + 75,500--80,000/- रुपये के वेतनमान में तथा आयकर लोकपाल निर्देशिका, 2010 में दी गई शर्तों के अधीन दिनांक 09.11.2011 (पूर्वाह्न) से दो वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके 63 वर्ष की आयु पूरी हो जाने तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, मुम्बई में आयकर लोकपाल के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. दिनांक 16 नवम्बर, 2011 की पूर्व अधिसूचना संख्या 113 को निरस्त समझा जाए।

वी. श्रीकुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2011

सं. 5/2011 [फा. सं. ए-19011/6/2011-एसओ(प्रशा.-1ग)सीस्टेट] --राष्ट्रपति, डॉ. दुर्गा माधवा मिश्रा, अधिवक्ता को दिनांक 28.11.2011 (पूर्वाह्न) से 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपील अधिकरण (सीस्टेट), कोलकाता में सदस्य (न्यायिक) के रूप में नियुक्त करते हैं।

विक्टर जेम्स, अवर सचिव

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 4 नवम्बर 2011

सं. ए. 22011/2/2008-प्रशा.2--राष्ट्रपति, व्यय विभाग (सीएस) के दिनांक 14.10.2011 के का.ज्ञा. सं. 32015/4/2010-सीएस के अनुसरण में, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में निम्नलिखित अनुभाग

अधिकारियों की तदर्थ नियुक्ति को दिनांक 31.12.2011 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं:--

क्र. सं.	नाम
	सर्वश्री
1.	बी.एन. सेनी
2.	भाष्कर चक्रवर्ती
3.	श्रीमती डी.के. कालरा
4.	किशन लाल मीणा
5.	मनोज मनु
6.	श्रीमती नीलम सिब्बल
7.	श्रीमती नीरा बुद्धिराजा
8.	रमेश प्रसाद
9.	सुश्री रीता सचदेवा
10.	श्रीमती साधना शर्मा
11.	संजय कुमार झा
12.	श्रीमती सरिता गुलाटी
13.	वाई.वाई. पराते
14.	सुश्री शिखा दास
15.	सुश्री सतिन्दर जीत कौर
16.	सुनील कुमार मांडी
17.	सुश्री ई. कूजर
18.	संतोष कुमार
19.	एस. सुब्रमणियम
20.	हृदय नंद साह
21.	सुश्री नीलम गांधी
22.	सुश्री प्रतिभा शर्मा
23.	डी.के. असिजा
24.	जस्टिन खालको

2. अनुभाग अधिकारी के रूप में उपरोक्त सहायकों की तदर्थ नियुक्तियां निम्नलिखित नियम एवं शर्तों के अधीन होगी:--

(क) यह तदर्थ नियुक्ति, कामचलाऊ व्यवस्था होने के कारण, इससे अधिकारियों को अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में उनका नाम शामिल किए जाने या अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा पेश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

दिनांक 29 नवम्बर 2011

वित्तीय सेवाएं विभाग

दिनांक 7 दिसम्बर 2011

नई दिल्ली, दिनांक 25 नवम्बर 2011

सं. ए-19012/182/2011-स्थापना--संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 2006, 2007 और 2008 के परिणाम के आधार पर, राष्ट्रपति, श्री सन्त राम (चयन सूची 2006/रैंक सं. 046) को 18 नवम्बर, 2011 के अपराह्न से और अगले आदेश होने तक, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री सन्त राम की अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित न्यायालय मामलों के परिणामों के अध्वधीन है :--

- (i) कैट, नई दिल्ली में श्री सौराशु सिन्हा बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ ए सं. 1083/2007 और एम ए सं. 1171/2007 और 2011 का एम ए
- (ii) कैट, नई दिल्ली में श्री ए. के. नन्दी और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ ए सं. 2136/2010
- (iii) कैट, नई दिल्ली में श्री विकास त्रिपाठी और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ ए सं. 2469/2010
- (iv) कैट, नई दिल्ली में श्री ए. प्रकाश और अन्य बनाम भारत संघ द्वारा दायर ओ ए सं. 1253/2009
- (v) कैट, नई दिल्ली में श्री प्रदीप कुमार मंडल बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा दायर ओ ए सं. 2584/2011 और एम ए सं. 1987/2011

मृत्युंजय सिंह, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक, 29 नवम्बर 2011

सं. ए-12026/8/2010-प्रशा. I--वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के सीएसएसएस संवर्ग में निजी सचिव (तदर्थ) श्री विनोद चन्द्र ओबराय अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 30 नवम्बर, 2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

2. इसी तारीख से उनका नाम विभाग की नामावली से काट दिया जाएगा।

बिप्लव कुमार राय, अवर सचिव

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

सं. पीएफजी (768)/11-प्रशासन-II--कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, (पश्चिमी क्षेत्र), कारपोरेट कार्य मंत्रालय में सहायक निदेशक, श्री ए. के. नायर को दिनांक 21.11.2011 से अगले आदेश तक उक्त धारा के प्रयोजनार्थ प्राधिकृत करती है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. पीएफजी (773)/11-प्रशासन-II--कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा श्रीमती वी. अन्नपूर्णा को दिनांक 24.08.2011 से अगले आदेश तक शासकीय समापक कार्यालय, हैदराबाद में स्थानापन्न आधार पर सहायक शासकीय समापक के पद पर नियुक्त करती है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. पीएफजी (767)/11-प्रशासन-II--कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 448 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री सुकुमार चक्रवर्ती को दिनांक 24.08.2011 से अगले आदेश तक शासकीय समापक कार्यालय, कोलकाता में स्थानापन्न आधार पर सहायक शासकीय समापक के पद पर नियुक्त करती है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

सं. पीएफजी (772)/2011-प्रशासन-II--कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री मृणाल कांति बरुआ को दिनांक 24.08.2011 से अगले आदेश तक कम्पनी रजिस्ट्रार सह शासकीय समापक कार्यालय, बिलासपुर में सहायक शासकीय समापक के पद पर नियुक्त करती है।

आर. के. पाण्डेय, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर 2011

सं. 9/2011 (फा. सं. 6/2370/2005/पीईएन/एचआरडी-1/ 4713)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर इस कार्यालय में विदेश व्यापार विकास अधिकारी, श्रीमती वसूधा कपूर 30.10.2011 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगी।

आर. एस. बिष्ट, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली-110107, दिनांक 5 दिसम्बर 2011

सं. 12023/1/2009/स्था.-I--राष्ट्रपति, श्री आयुष मणि तिवारी, आईपीएस (टीएन: 1997) को निदेशक स्तर पर (पे बैंड-4 में 37,400--67,000/- रुपए + 8,700/- रुपए ग्रेड पे में) दिनांक 01.12.2011 के पूर्वाह्न से तथा उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि अर्थात् 25.02.2014 तक अथवा मंत्री जी के साथ सह-अवधि के आधार पर अथवा मंत्री के लिए उनके ओएसडी के रूप में कार्य समाप्ति तक अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वाणिज्य

एवं उद्योग मंत्री (श्री आनंद शर्मा) के विशेष कार्य अधिकारी (ओएसडी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

एल. के. शर्मा, अवर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर 2011

सं. ए-38011/18/2011-स्था.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में श्रीमती शारदा मदरा, अनुभाग अधिकारी (सीएसएस) [एसएलवाई (एसक्यू): 2005], दिनांक 30.11.2011 अपराह्न से भारत सरकार से सेवा निवृत्त हो गयी हैं।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

सं. ए-38011/17/2011-स्था.--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) (सीएसएल सं. 4034) श्री विजय कुमार सेठ्ठी दिनांक 30.11.2011 अपराह्न से भारत सरकार से सेवा निवृत्त हो गए हैं।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 2 दिसम्बर 2011

सं. ए-12011/3/2011-स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.11.2011 के का.ज्ञा. संख्या 1/4/2009-ईओ (एमएम-1) के अनुसरण में राज्य मंत्री (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) (श्री आर.पी.एन. सिंह) के निजी सचिव, श्री असित सिंह, भा.रा.से. (आ.क. : 1990) के केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल को 31.12.2011 तक की अवधि के लिए आगे बढ़ाती हैं।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

दिनांक 7 दिसम्बर 2011

सं. ए-32011/1/2010-स्था.--राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संवर्ग में पुस्तकालय सूचना सहायक, श्रीमती अरुण बाला आनन्द की 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड-2 में और 4,600/- रुपए के ग्रेड वेतन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी के रूप में तदर्थ आधार पर की गई नियुक्ति की अवधि को 01.12.2011 से 6 मास की अवधि या अगले आदेश होने, इनमें जो भी पहले हो, तक आगे बढ़ाती हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति सर्वथा तदर्थ आधार पर है और नियमित नियुक्ति के लिए ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने और सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं मिलेगा। इस तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

के. एम. सिंह, अवर सचिव

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 2011

सं. ए-19011/8/2011-स्था.--राष्ट्रपति, रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में श्री विजय कुमार को पीबी-2 (9,300--34,800/- रुपए), ग्रेड पे-4,800/- रुपए में 18 नवम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर. के. कुरील, अवर सचिव

उपभोक्ता, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

सं. ए-12011/7/2009-स्थापना--राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 22 नवम्बर, 2011 के आदेश सं. 13016/1/2011-आई.ई.एस. के अनुसरण में सुश्री गंगा मूर्ति, (आई.ई.एस. : 76) को दिनांक 23 नवम्बर, 2011 पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, उपभोक्ता मामले विभाग में 80,000/- रु. (नियत) के वेतनमान में प्रधान सलाहकार (एच ए जी प्लस ग्रेड) नियुक्त करते हैं।

एम. ए. चौधरी, अवर सचिव

दिनांक 13 दिसम्बर 2010

सं. ए-12011/10/2003--स्था.--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08 नवम्बर, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 4/2/2011-सीएस-II(ए) के अनुसरण और इस विभाग के 12 जुलाई, 2011 की पूर्ववर्ती अधिसूचना के क्रम में श्री राजेन्द्र सिंह और श्रीमती नीलम शर्मा, निजी सचिव की 9,300--34,800/- रुपए के वेतन बैंड (पी बी-2) तथा क्रमशः 4,800/- रुपए के ग्रेड वेतन में तदर्थ नियुक्ति की अवधि को 31.03.2012 तक या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के नियमित निजी सचिव के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें अनिश्चित काल के लिए ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए निजी सचिवों की चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सचिव ग्रेड में वरिष्ठता आदि का दावा करने को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तदर्थ नियुक्ति को किसी भी समय बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकता है।

एम. के. चौधरी, अवर सचिव

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (जैव प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 नवम्बर 2011

सं. ए-12011/01/96-स्था.--राष्ट्रपति, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत डॉ. महाराज किशन भान की नियुक्ति को उनके वर्तमान पद के लिए हकदार निबंधन एवं शर्तों

पर 30.11.2011 के बाद एक वर्ष की अवधि हेतु कॉन्ट्रैक्ट आधार पर सहर्ष विस्तार देते हैं।

के. एम. कुट्टी, उप सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 24 नवम्बर 2011

सं. 17013/06/2011-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2009 की चयन सूची के आधार पर आंध्र प्रदेश के राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का आंध्र प्रदेश संवर्ग आबंटित करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	टी. वी. सुब्बा रेड्डी	01.07.1957
2.	एस. श्रीकांतानाथा रेड्डी	25.08.1974

विवेक सक्सेना, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 नवम्बर 2011

सं. ए-12013/4/2005-पी-II-(.)--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुभाग अधिकारी ग्रेड की संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा वर्ष 2006, 2007 और 200 उत्तीर्ण करने और कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं. 6/3/2011 सी.एस.आई.(एस) दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में नामित किए जाने के परिणामस्वरूप निम्नलिखित पदाधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में 4,800/- रु. के ग्रेड पे सहित पे बैंड-2, 9,300--34,800/- रु. में नियमित आधार पर उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथियों से वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	चयन सूची वर्ष	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री अमित कुमार सिंह	2006	16.11.2011(पूर्वाह)
2.	श्री मनोज कुमार पाठक	2007	14.11.2011(पूर्वाह)
3.	श्री अजय जोशी	2007	11.11.2011(पूर्वाह)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति, दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित न्यायालय मामलों के परिणाम के अधधीन होगी।

एम. के. राय, अवर सचिव

दिनांक 24 नवम्बर 2011

सं. ए-11013/1/2011-पी. II--राष्ट्रपति, श्री के. जी. शिवकुमार को पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती जयंती नटराजन के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में 4,800/- रु. के ग्रेड पे सहित पे बैंड-2 (रु. 9,300--34,800/-) में 14.09.2011 के पूर्वाह से नियुक्त करते हैं।

2. श्री के. जी. शिवकुमार की नियुक्ति को-टर्मिनस आधार पर होगी और पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की इच्छा पर निर्भर करेगी।

मनोज कुमार राय, अवर सचिव

नई दिल्ली-110510, दिनांक 24 नवम्बर 2011

सं. 17013/04/2009-भा.वा.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उप-विनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियमावली, 1966 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश के राज्य वन सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को विद्यमान रिक्त पदों पर भारतीय वन सेवा में तत्काल प्रभाव से नियुक्त करते हैं और भारतीय वन सेवा (संवर्ग) अधिनियम, 1966 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का मध्य प्रदेश संवर्ग आबंटित करते हैं :--

2008-ए की चयन सूची

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
1.	श्री देवेंद्र कुमार पालीवाल	01.07.1963
2.	डॉ. शैलेन्द्र कुमार गुप्ता	27.02.1963
3.	श्री खान शफी अख्तर	07.08.1964
4.	श्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया (एससी)	04.02.1962
5.	श्री लाखन लाल यूकेय (एसटी)	17.06.1965
6.	श्री लालजी मिश्रा	15.12.1961
7.	श्री अनिल कुमार सिंह	01.03.1965
8.	श्री बृजेन्द्र झा	03.08.1966
9.	श्री रमेश चंद्र विश्वकर्मा	30.06.1965
10.	श्री अजय कुमार पांडेय	28.06.1965

2. चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति निम्नलिखित के अधधीन है :--

(क) श्री एस. एस. उड्डी द्वारा दायर रिट याचिका सं. 17421/2010

(ख) श्री पी. पी. तितारे द्वारा दायर रिट याचिका सं. 17423/2010

(ग) श्री मुकुंद नारायण त्रिवेदी द्वारा दायर रिट याचिका सं. 18517/2010 (एस) और

(घ) श्री अतुल मुमार मिश्रा द्वारा दायर रिट याचिका सं. 12703/2010
जोसेफ लुईखम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 2 दिसम्बर 2011

सं. ए-12025/34/2011-सीएचएस-III--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. जतिन तलवार को दिनांक 10 मई, 2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण विशेषज्ञ उप संवर्ग में अस्थि रोग शल्य चिकित्सा की विशेषज्ञता में सहायक प्रोफेसर के पद पर परीक्षा पर नियुक्त करती हैं।

ललित कुमार, अवर सचिव

स्वास्थ्य विभाग

नई दिल्ली-110108, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

सं. ए-12025/5/2009-सी.एच.एस.1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. कशिका को दिनांक 5.10.2011 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक अस्थायी रूप से पीबी-3 (15,600--39,100/- रुपए + 5,400/- रुपए ग्रेड पे) के वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में नियुक्त करती हैं। डॉ. कशिका को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है।

एम. के. शरवर, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 23 नवम्बर 2011

सं. ए-32014/03/2011-स्थापना-I--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों के नाम विभागीय परीक्षा कोटे में प्रवर सूचियों में शामिल होने के परिणामस्वरूप उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में उनके सामने दर्शाई गई तारीखों से नियमित आधार पर नियुक्त करती हैं :--

- | | |
|--|------------------------|
| (i) श्री मनजीत सिंह (एसएल-2007) | 18.11.2011 (पूर्वाह्न) |
| (ii) श्री प्रदीप कुमार बंदोपाध्याय (एसएल-2008) | 18.11.2011 (पूर्वाह्न) |

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 27.10.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/3/2011-सीएस-1(एस) के पैरा 5 में उल्लिखित न्यायालयी वाद के नतीजे के अध्वधीन हैं।

अनिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 2 दिसम्बर 2011

सं. ए-11013/3/2011-स्था.1(पार्ट)--राष्ट्रपति, श्री बिमन कुमार बरुआ, एक गैर-सेवा कार्मिक को दिनांक 1 दिसम्बर, 2011 के पूर्वाह्न से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (श्री सुदीप बंदोपाध्याय) के सहायक निजी सचिव (पीबी-2 ग्रेड वेतन 4,800/- रु.) के रूप में नियुक्त करती हैं।

2. श्री बिमन कुमार बरुआ की नियुक्ति सह-कालिक आधार पर अथवा मंत्री द्वारा उनकी सेवा अपेक्षित होने या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

अनिल कुमार, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2011

शुद्धि-पत्र

सं. ए-12026/2/2010-डी(डीएफक्यूसी)--डॉ. नंदिता साहा की दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 और आगामी आदेशों तक वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (संदर्भ मानक), केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता के पद पर प्रोन्नति पर नियुक्ति होने के संबंध में इस मंत्रालय की दिनांक 2 नवम्बर, 2011 की समसंख्यक अधिसूचना में,

संशोधित वेतन ढांचे "15,600-- 39,000/- रुपए + ग्रेड पे 6,600/-" रुपए के स्थान पर "15,600-- 39,100/- रुपए + ग्रेड पे 6,600/-" रुपए पढ़ें।

सुधीर कुमार, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

सं. 19011/26/2011-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की उनके पत्र सं. 1/86(35)/2010-आर.1 दिनांक 14.10.2011 के अधीन दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए डॉ. अरुणा शर्मा को 2 दिसम्बर 2011 के पूर्वाह्न से पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग में वेतन बैंड-3 के 15,600--39,100/- रुपए के वेतनमान तथा 5,400/- रुपए + एनपीए (यथा स्वीकार्य) के ग्रेड वेतन में पशुधन अधिकारी के पद पर नियुक्त करती हैं।

सुभाष चन्द खत्री, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 नवम्बर 2011

सं. 5-3/2011-प्रशा.--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 अक्टूबर, 2011 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/5/2011-सीएस.1 (एस) के अनुसार, राष्ट्रपति, इस मंत्रालय में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित सहायकों को उनके नामों के सम्मुख निर्दिष्ट तारीखों

से पूरी तरह अस्थाई तथा तदर्थ आधार पर केंद्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के पद पर नियुक्त करते हैं :--

1. श्रीमती सुमन कात्याल 08.11.2011 (पूर्वाह्न)
2. श्री जे. एस. राणा 08.11.2011 (पूर्वाह्न)
3. श्री जी. एच. मुरलीधर 08.11.2011 (पूर्वाह्न)

नवीन यादव, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. ए-12022/1/2005-स्था. I--राष्ट्रपति, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की उनकी अवधि समाप्त होने पर सुश्री रीना गर्ग, आईए एण्ड एस (95), निदेशक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिनांक 2.10.2011 के अपराह्न से कार्यभार मुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, सुश्री रीना गर्ग की सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक को सौंपी जाती हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 30 सितम्बर 2011

सं. ए-12022/1/2005-स्था. I--राष्ट्रपति, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति की उनकी अवधि समाप्त होने पर श्री डी. के. सिंह, आईआरटीएस (88), निदेशक को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में दिनांक 3.10.2011 के अपराह्न से कार्यभार मुक्त करते हैं।

2. इसके अतिरिक्त, श्री डी. के. सिंह की सेवाएं उनके मूल संवर्ग अर्थात् रेल मंत्रालय को सौंपी जाती हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2011

सं. ए-32013/03/2007-स्था.--केंद्रीय सचिवालय सेवा (सी.एस. एस.) के चयन ग्रेड (उप सचिव) की चयन सूची 2005 में सम्मिलन होने और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 19 सितम्बर, 2011 के का.ज्ञा. सं. 4/8/2011-सी.एस. I (डी) के तहत नियमित आधार पर उप सचिव के रूप में पदोन्नति होने तथा इस मंत्रालय में तैनाती होने के परिणामस्वरूप, राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री एम. आर. बाली को 04.10.2011 के (पूर्वाह्न) से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सी.एस.एस. के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 17 नवम्बर 2011

सं. ए-12022/2/2005-स्था. I--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 4 नवम्बर, 2011 के आदेश सं. 21/6/2010-सीएस-I(डी)

खण्ड-II के अनुसरण में केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत संयुक्त सचिव अथवा समतुल्य पद धारण करने के लिए उनके नामांकन के उपरांत, राष्ट्रपति, केंद्रीय सचिवालय सेवा के मूल वरिष्ठ चयन ग्रेड अधिकारी, श्री आर.एस. मीणा को 8 नवम्बर, 2011 (पूर्वाह्न) से इस मंत्रालय में संयुक्त सचिव (स्व-स्थाने) (पीबी-4, ग्रेड पे 10,000/- रु.) के पद पर नियुक्त करते हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 30 नवम्बर 2011

सं. 19011/13/2007-स्थापना--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर इस मंत्रालय में उप सचिव श्री आर. राममूर्ति दिनांक 30.11.2011 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

ए. के. साहा, अवर सचिव

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 31 अक्टूबर 2011

सं. 1-26/2011-एसपीजी--मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.10.2011 के पत्र सं. 24/7/2011 ई. ओ. (एसएम. I) के अनुसरण में, सुश्री मंजुला पराशर, भारतीय डाक सेवा-1976 ने सचिव, डाक विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड तथा महानिदेशक, डाक सेवाएं के पद पर दिनांक 31.10.2011 (अपराह्न) से कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

राजकुमार, निदेशक (स्टाफ)

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

सं. ई.(जी.पी.)2008/3/6--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलों के दूरसंचार विभाग के निम्नलिखित 39 ग्रुप-बी अधिकारियों की, उल्लिखित रेलों पर 12.10.2011 से भारतीय रेल सिगनल एवं दूरसंचार सेवा (आई.आर.एस. एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में सहर्ष नियुक्त करते हैं :--

2009-10 के लिए पैनल

अधिकारियों के नाम

सर्वश्री

मध्य रेलवे

1. अनिल कुमार एन. गई
2. डी. बी. गुलावे

पूर्व तटीय रेलवे

तापस लाहिरी

पूर्व मध्य रेलवे

1. ऐश्वर्य कुमार
2. कृष्ण देव सिंह

पूर्व रेलवे

1. अमित कु. कमिला
2. हरिहर पाल
3. टी. के. चक्रवर्ती
4. अतानु कु. डे
5. नीलकान्त बोस
6. शंकर प्रसाद सोरेन (अ.ज.जा.) (अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

उत्तर मध्य रेलवे

1. आर. वी. सिंह
2. ए. पी. सिंह

पूर्वोत्तर रेलवे

बेकारू आर्या (अ.जा.)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे

1. पी. के. डेका
2. जी. जी. रॉय
3. एस. के. मित्रा
4. ज्योतिर्मय रॉय

उत्तर रेलवे

1. वी. के. वर्मा
2. राम नरेश (अ.जा.)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

उत्तर पश्चिम रेलवे

सुनिल जोशी

दक्षिण मध्य रेलवे

1. के. रामा कृष्ण राव
2. एस. के. पीरबाषा
3. के. बाबू राव (अ.जा.)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे

1. एम. के. श्रीवास्तव
2. देबजीत दास (अ.जा.)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

दक्षिण पूर्व रेलवे

एस. के. मोइत्रा (अ.जा.)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

दक्षिण रेलवे

1. नारायणन कुट्टी
2. एल. एन. शिवनाथ बाबू
3. ए. शंकरामूर्थी

पश्चिम मध्य रेलवे

1. महमूद आलम
2. ए. के. शर्मा
3. हरिश चन्द्र यादव
4. वी. के. कटियार

5. बिगु साह (अ.ज.जा.)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

6. हीरा सिंह मीना (अ.ज.जा.)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

पश्चिम रेलवे

1. एन. वी. जोसफ
2. योगेन्द्र सिंह (अ.जा.)
3. राज कुमार (अ.जा.)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

(अ.ज.जा. के आरक्षित पद पर पदोन्नत)

वी. के. गुप्ता, सचिव
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 दिसम्बर 2011

सं. ए-19011/2/2011-स्था.--राष्ट्रपति, श्री एस. एस. शर्मा को केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की वर्ष 2010 (अंश) की चयन श्रेणी में सम्मिलित होने पर, पोत परिवहन मंत्रालय में दिनांक 21.11.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अनुराग शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 5 दिसम्बर 2011

सं. ए-38012/2/2011-स्था.--पोत परिवहन मंत्रालय के चार्टरिंग विंग से श्री रवि किरण छिब्बर, चार्टरिंग अधिकारी अधिवर्षिता की आयु में पहुंचने के कारण शासकीय सेवा से दिनांक 30.11.2011 (अपराह्न) से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

अनुराग शर्मा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

सं. 15/11 (फा. सं. 19/20/2011-स्था. 1)--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के फलस्वरूप केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी, उनके आगे दर्शाई तारीख से सेवानिवृत्त हो गए हैं :--

क्रम सं.	नाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	श्री जी. पी. माथुर	30.06.2011 (अपराह)
2.	श्री डी. एन. सिंह	31.10.2011 (अपराह)

नरेन्द्र सिंह, अवर सचिव

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 नवम्बर 2011

सं. ए-12025/2/2010-पीपीपी--राष्ट्रपति, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन, शहरी विकास मंत्रालय में पे-बैंड-3 (15,600--39,100/- + ग्रेड पे 7,600/- रु.) में वर्तमान में तदर्थ आधार पर उप सलाहकार (पीएचई) के पद पर कार्यरत श्री जे. बी. रविन्दर को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसा किए जाने के परिणामस्वरूप, तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर उप सलाहकार (पीएचई) के पद पर नियुक्त करते हैं।

जितेन्द्र कुमार, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 नवम्बर 2011

सं. ए-32014/01/2008-प्रशा. I (पार्ट)--राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 6/5/2011-सी.एस.-I (एस) दिनांक 04.10.2011 के अनुसरण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित सहायकों की अनुभाग अधिकारी (ग्रुप 'बी'/राजपत्रित) (वेतन बैंड-2, 9,300--34,800/- रु., ग्रेड वेतन 4,800/- रु.) के पद पर इस मंत्रालय में तदर्थ आधार पर नियुक्ति की अवधि दिनांक 31.12.2011 तक के लिए बढ़ाती है :--

क्र.सं.	नाम	चयन सूची वर्ष
1	2	3
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	
1.	जे. के. कश्यप	1992
2.	बी. डी. शर्मा	1992
3.	सुनीता शर्मा	1992
4.	एस. पी. गोयल	1992
5.	एम. आर. चंदवारा (अनु. जा.)	1992
6.	एन. के. जोशी	1993

1	2	3
7.	आई. डी. शर्मा	1993
8.	प्रेम चोपड़ा	1993
9.	आर. के. त्रेहान (अनु. जा.)	1993
10.	नरेश कुमार	1994
11.	रीता सिंह	1994
12.	ओम प्रकाश (अनु. जा.)	1994
13.	शीश राम (अनु. जा.)	1994
14.	वी. सी. त्रिपाठी	1995
15.	सरोज बाला भाटिया	1995
16.	अनिल कुमार शर्मा	1995
17.	विनोद कुमार (अनु. जा.)	1995
18.	योगेन्द्र वी. रनदिवे (अनु. जनजाति)	1995
19.	जमना दास (अनु. जा.)	1995
20.	बी. टी. चिचुलकर (अनु. जनजाति)	1998
21.	विवेन्द्र कुमार	1999

2. उपर्युक्त सहायकों की अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर आधारित है :--

(क) तदर्थ पदोन्नति की अवधि 31.12.2011 तक अथवा नियमित अनुभाग अधिकारी उपलब्ध होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक होगी।

(ख) तदर्थ नियुक्ति नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा अनुभाग अधिकारी के लिए नियमित नियुक्ति की चयन-सूची में शामिल किए जाने अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(ग) अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ नियुक्ति वरिष्ठता कोट और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा नियमित अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने तक बनी रहेगी। तदर्थ अभ्यर्थियों के इन किन्हीं भी दो वर्गों में नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त न करने की स्थिति में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियमित अधिकारियों को आवंटित संबंधित संवर्ग एककों में उनके (नियमित अनुभाग अधिकारी) के पद पर कार्यग्रहण करने पर उनकी उपलब्धता की तारीख से सहायक के संवर्ग में पदावनत कर दिया जाएगा।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

दिनांक 3 नवम्बर 2011

सं. ए-12025/01/2011-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित अनुभाग अधिकारी श्री शिव कुमार साधू को ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर 11.08.2011 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर नियुक्त करती है।

प्रदीप गौड़, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110 101, the 30th November 2011

No. A-22017/1/2011-PME—On attaining the age of superannuation, Shri S. B. Iyer, Joint Director of Railway Board Secretariat Service, and working as Officer on Special Duty to Minister of State in Prime Minister's Office (Sh. V. Narayanasamy) retired from Government Service with effect from the afternoon of 30th November, 2011.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 1st December 2011

No. A-22017/1/2011-PME—Shri S. B. Iyer, a retired Government Servant, is appointed as Officer on Special Duty to Minister of State (PMO) in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100) with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 1st December, 2011.

2. The appointment of Shri S. B. Iyer is co-terminous with the tenure of and at the discretion of MOS (PMO).

3. The pay and allowances of Sh. S. B. Iyer, OSD, shall be governed by CCS (Fixation of Pay of Re-employed Pensioners) Order, 1986, as amended from time to time.

R. MYTHILI, Under Secy.

The 5th December 2011

No. A-22017/2/2011-PME—The President is pleased to appoint Shri Jayaraman K. Private Secretary of CSSS Cadre of MHA, in the same capacity on the personal staff of Adviser to Prime Minister (MOS Rank) with effect from the forenoon of 1st December, 2011.

2. The appointment of Shri Jayaraman K., on the personal staff of Adviser to Prime Minister, is co-terminous with the tenure of and at the discretion of the Adviser to P.M.

R. MYTHILI, Under Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560 231, the 2nd December 2011

No. 2/1(1) 2011-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Advanced Data Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 01.07.2011 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
1	2	3	4
1.	Shri/Smt./Kum. Archana Mahapatra	Scientist/Engineer-SE	Scientist/Engineer-SF

1	2	3	4
2.	C. Vijaykumar	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
3.	R. Usha Devi	Scientist/Engineer-SD	Scientist/Engineer-SE
4.	Shalini Sharma	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
5.	Vijender Busi Reddy	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
6.	Suraj K.R.	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 8/1(1) 2011-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of appointment
1.	Shri/Smt./Kum. Vinay Kumar Singh	03.08.2011
2.	Dharvendra Pratap Yadav	08.08.2011
3.	Anu Arora	08.08.2011
4.	Vineet Kumar Srivastava	08.08.2011
5.	Dileep. D	08.08.2011
6.	B. Prabu Nireekshana Rao	08.08.2011
7.	Rohan Dutta	11.08.2011
8.	Saurabh Kumar Mohan	11.08.2011

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

No. 8/1(1) 2011-I—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bangalore of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2011 and until further orders :—

Sl. No.	Name	Post to which promoted
1	2	3
1.	Shri/Smt./Kum. S. Beula Rose	Scientist/Engineer-SD
2.	Aman Kumar Sinha	Scientist/Engineer-SD
3.	Vasugi. P	Scientist/Engineer-SD

1	2	3
4.	Padmdeo Mishra	Scientist/Engineer-SD
5.	Bijoy Kumar Dai	Scientist/Engineer-SD
6.	Aravind V.	Scientist/Engineer-SD
7.	Amit Purohit	Scientist/Engineer-SD
8.	Farhana Ahmed	Scientist/Engineer-SE
9.	Jayakumar R.	Scientist/Engineer-SE
10.	N. Bhanu Prakash	Scientist/Engineer-SE
11.	Ceena Sunil	Scientist/Engineer-SF
12.	B. N. Ramakrishna	Scientist/Engineer-SG
13.	Dr. V. K. Anandan	Scientist/Engineer-SG

N. PATTABHI RAMAN, Under Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 17th November 2011

No. A-22012/01/2011-Admn.-IV—Consequent upon qualifying the Combined Limited Departmental Competitive Examination 2006, 2007, 2008 conducted by Union Public Service Commission, and subsequent nomination to Planning Commission vide Department of Personnel & Training Order No. 6/3/2011-C.S.I(S) dated 27th October, 2011, the President is pleased to appoint Shri Ram Vilas Premi, as Section Officer (CSS), Select List-2006 in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay of Rs. 4,800/- in Planning Commission, with effect from 16.11.2011 (F.N.).

P. C. BHARDWAJ, Under Secy.

New Delhi-110 001, the 23rd November 2011

No. A-32013/02/2011-Adm.III (Vol.II)—Consequent upon his promotion to the Principal Private Secretary (PPS) Grade of CSSS on ad hoc basis and nomination to Planning Commission vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 3/1/2011-CS.II(A) (Pt.), dated the 25th October, 2011, the President is pleased to appoint Shri Baldev Singh, a regular Private Secretary of CSSS cadre of Ministry of Home Affairs, Office of the Registrar General, India as Principal Private Secretary (PPS) of CSSS in Planning Commission on ad hoc basis in the Pay Band PB-3; Rs. 15,600—39,100 with corresponding Grade Pay of Rs. 6,600 with effect from 14.11.2011 (FN) for a period upto 31.03.2012 or till the posts are filled up on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

2. The appointment of Shri Baldev Singh to the grade of PPS of CSSS is purely on ad hoc basis and shall not confer on him any right to continue in the grade indefinitely or claim seniority in the grade of PPS.

GULVEENA BADHAN, Under Secy.

New Delhi, the 2nd Decemebr 2011

No. A. 12025/13/2010-Adm.I—The President is pleased to appoint Shri Debashish Banerjee, regular Deputy Adviser (Consumer Industries), Planning Commission as Joint Adviser (Industries and Infrastructure Planning) in the Planning Commission in PB : 4 of Rs. 37,400—67,000+8,700/- (Grade Pay) on regular promotion basis w.e.f. the forenoon of 29.11.2011 and until further orders.

G. RAJEEV, Under Secy.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 25th November 2011

No. A. 12025/1/2007-Pt.-Admn.I(L.D.)—The President is pleased to appoint Shri Ramisetty Sreenivas Assistant Legislative Counsel in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the post of Deputy Legislative Counsel (Grade III of Indian Legal Service) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 plus Grade Pay of Rs. 7,600/- in the said Department of Ministry of Law and Justice on ad hoc basis for a period of three months with effect from the forenoon of 5th August, 2011 or until further orders, whichever is earlier.

2. This ad hoc appointment will not bestow on him any claim for regular appointment whatsoever to the grade of Deputy Legislative Counsel (Grade III of ILS) nor the ad hoc services rendered by him will count for the purpose of seniority in the grade or for their promotion to the next higher grade.

M. R. BEERH, Director (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 8th December 2011

No. I-14012/13/2002-IPS-IV—In exercise of the powers conferred by Rule-6 of the Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954, the President of India is pleased to appoint Shri J. Loganathan, Rank-208, to the Indian Police Service on probation on the basis of the Civil Services Examination, 2001 with effect from the date mentioned against his name below :—

Name of the IPS Probationer	Date of Birth	Date of Appointment to the IPS
Shri J. Loganathan, (Rank-208)	04.05.1973	20.12.2010 (FN)

2. The appointment of Shri J. Loganathan to the Indian Police Service is provisional and subject to necessary verification report of the creamy layer status of his OBC claim from the authorities concerned.

INDERJEET KAUR, Director (Police)

New Delhi-1, the 7th December 2011

No. 14046/37/2006-UTS-I—The President is pleased to permit Shri Dinesh Kumar Bhatt, and Indian Police Service Officer of 1993 Batch of Joint Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre, to retire from service voluntarily with immediate effect in accordance with Rule 16(2A) of the All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) Rules, 1958.

O. S. ASHOK, Under Secy.

New Delhi-110001, the 8th December 2011

No. I-14012/15/2011-IPS-IV—Consequent upon his selection for appointment to the Indian Administrative Service on the basis of his qualifying the Civil Service Examination, 2010, the President is pleased to accept the technical resignation of Shri Saurabh Tolumbia, IPS, (GJ : 2007), who was appointed to Indian Police Service on the basis of the Civil Services Examination, 2006, from the Indian Police Service with effect from 03.12.2011 (AN).

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 1st December 2011

No. A-38011/5/2011-ISC—On attaining the age of superannuation, Shri Rajiv Kumar Nair, Deputy Secretary (CSS), Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs stands superannuated from Govt. Service with effect from the afternoon of 30th November, 2011.

LAJPAT RAI GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPTT. OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 1st December 2011

No. 13017/36/2011-AIS-I—In exercise of the powers conferred by rule 6(1) of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Governments of Haryana and Ministry of Home Affairs, the Central Govt. hereby accords approval for inter cadre deputation of Shri Anil Kumar, IAS (HY : 88) from Haryana cadre to AGMUT cadre for appointment to the post of Home Secretary, Chandigarh Administration for a period of

three years with effect from the date of his reporting for duty.

NARINDRA GAUTAM, Under Secy.

The 2nd December 2011

No. 13017/34/2010-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Assam, Meghalaya, Manipur and Tripura, the Central Government hereby transfers Shri Ningthoujam Geoffrey, IAS (AM : 07) from Assam-Meghalaya cadre to Manipur-Tripura cadre (Manipur Segment) under the extant policy relating to North-East.

NARINDRA GAUTAM, Under Secy.

The 7th December 2011

No. 13017/37/2011-AIS-I—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Tamil Nadu and West Bengal, the Central Government hereby transfers Ms. Lalithalakshmi, IAS (TN : 08) from Tamil Nadu to West Bengal cadre on ground of marriage to Shri Saurav Pahari, IAS (WB : 08).

NARINDRA GAUTAM, Under Secy.

New Delhi, the 7th December 2011

No. 14012/02/2011-AIS-III—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm, the following members of the Indian Administrative Service borne on the Joint Cadre of Assam-Meghalaya, in the Indian Administrative Service, with effect from the date(s) shown against them :—

Sl. No.	Name	Batch	Date of confirmation
1.	Shri Brahma Deo Ram Tiwari	2006	29.08.2008
2.	Ms. Kavitha Padmanabhan	2006	29.08.2008
3.	Shri Om Prakash	2006	29.08.2008
4.	Shri Pravin Bakshi	2006	29.08.2008
5.	Shri Puru Gupta	2006	30.08.2008

NAVNEET MISRA, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 21st November 2011

No. 3/GA/2011—The Government of India has opened the following Mission :—

Name of Mission	Date/Month/Year of Opening
Consulate General of India Atlanta (United States of America)	30th August 2011

2. All Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and the Administrations of all Union Territories are requested to ensure that the correspondence to the above Post is addressed "C/o Diplomatic Bag Section, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi".

SUNEET MEHTA, Under Secy.

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 30th November 2011

No. D-III/460/CF-60/2009—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Manikam Ramaswami as Honorary Consul of the Federal Democratic Republic of Ethiopia in Chennai with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Manikam Ramaswami comprises the City of Chennai with the seat in Chennai.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

No. DIII/460/CF-17/2011—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Sai Ramakrishna Karuturi as Honorary Consul of the Federal Democratic Republic of Ethiopia in Bengaluru with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Sai Ramakrishna Karuturi comprises the City of Bengaluru with the seat in Bengaluru.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

The 1st December 2011

No. DIII/460/CF-33/2011—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Shivkumar Eashwaran as Honorary Consul of the Republic of Armenia in Chennai for a period of two years with effect from 03.11.2011.

The consular jurisdiction of Mr. Shivkumar Eashwaran comprises the City of Chennai with the seat in Chennai.

DEEPAK MIGLANI, Dy. Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS

New Delhi, the 1st December 2011

No. A-19011/2/2008-PA—Consequent on his attaining the age of superannuation, Shri Kanwar Bhan Arora, Director in the Ministry of Overseas Indian Affairs, New Delhi retired from Government service with effect from the afternoon of 30th November, 2011.

R. C. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 11th November 2011

No. 109 : (F. No. A-19014/08/2011-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Chandra Shekhar, a regular Assistant of the cadre of Ministry of Road Transport & Highways of Central Secretariat Service as Section Officer (SL/2006) in this Department on the basis of qualifying the Limited Departmental Competitive Examination, 2006 w.e.f. 02.11.2011 (FN).

2. As per the CSS Rules 1964, the approved regular service of Shri Chandra Shekhar in the Section Officer Grade will be counted from 1st July, 2006.

3. The appointment of Shri Chandra Shekhar as regular Section Officer shall be subject to outcome of following court cases :—

- (i) OA No. 1083/2007 MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI in CAT, New Delhi;
- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi;
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi;
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi; and
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UOI & Ors. in CAT, New Delhi.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

No. 110 : (F. No. A-19014/07/2011-Ad.I)—The President is pleased to appoint Shri Raghunathan T. V., a regular Assistant of the cadre of Ministry of Rural Development of Central Secretariat Service as Section Officer (SL/2008) in this Department on the basis of qualifying the Limited Departmental Competitive Examination, 2008 w.e.f. 31.10.2011 (AN).

2. As per the CSS Rules 1964, the approved regular service of Shri Raghunathan T. V. in the Section Officer Grade will be counted from 1st July, 2008.

3. The appointment of Shri Raghunathan T. V. as regular Section Officer shall be subject to outcome of following court cases :—

- (i) OA No. 1083/2007 MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI in CAT, New Delhi;

- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi;
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi;
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi; and
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UOI & Ors. in CAT, New Delhi.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 14th November 2011

No. 111 : (F. No. A-19014/09/2011-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri V. Ganesh Kumar, a regular Assistant of the cadre of Ministry of Road Transport & Highways of Central Secretariat Service as Section Officer (SL/2008) in this Department on the basis of qualifying the Limited Departmental Competitive Examination, 2008 w.e.f. 02.11.2011 (FN).

2. As per the CSS Rules 1964, the approved regular service of Shri V. Ganesh Kumar in the Section Officer Grade will be counted from 1st July, 2008.

3. The appointment of Shri V. Ganesh Kumar as regular Section Officer shall be subject to outcome of following court cases :—

- (i) OA No. 1083/2007 MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI in CAT, New Delhi;
- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi;
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi;
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi; and
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UOI & Ors. in CAT, New Delhi.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 16th November 2011

No. 113 : (F. No. A-19011/22/2011-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Mukesh Bhandi, IRS (IT : 75011) (Retd.), as Income Tax Ombudsman at Mumbai in the HAG + Pay Scale of Rs. 75,500—80,000/- subject to the terms and conditions contained in the Income Tax Ombudsman Guidelines, 2010 for a period of 2 years with

effect from 11.11.2011 (FN) or till he attains the age of 63 years or until further orders, whichever is earlier.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

The 24th November 2011

CORRIGENDUM

No. 115 : (F. No. A-19011/22/2011-Ad.I)—The President of India is pleased to appoint Shri Mukesh Bhandi, IRS (IT : 75011) (Retd.), as Income Tax Ombudsman at Mumbai in the HAG + Pay Scale of Rs. 75,500—80,000/- subject to the terms and conditions contained in the Income Tax Ombudsman Guidelines, 2010 for a period of 2 years with effect from 09.11.2011 (FN) or till he attains the age of 63 years or until further orders, whichever is earlier.

2. The earlier Notification No. 113 dated 16th November 2011 may be treated as cancelled.

V. SREEKUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 30th November 2011

No. 5/2011 [F. No. A-19011/6/2011-SO (AD-IC)CESTAT]—The President is pleased to appoint Dr. Durga Madhaba Misra, Advocate as Member (Judicial) in the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal, Kolkata with effect from 28.11.2011 (forenoon) till attaining the age of 62 years or until further orders, whichever is earlier.

VICTOR JAMES, Under Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 4th November 2011

No. A-22011/2/2008-Admn.II—In pursuance of O.M. No. 32015/4/2010-CAS dated 14.10.2011 of Department of Expenditure (CAS), the President is pleased to continue the ad hoc appointment of the following Section Officers upto 31.12.2011, or till the regular Section Officers are made available, whichever is earlier, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs :—

Sl. No.	Name
---------	------

1	2
---	---

Shri/Smt.

1. B. N. Saini
2. Bhaskar Chakraborty
3. D. K. Kalra
4. Kishan Lal Meena

1	2
5.	Manoj Manu
6.	Neelam Sibal (Smt.)
7.	Neera Budhiraja (Smt.)
8.	Ramesh Prasad
9.	Rita Sachdeva (Smt.)
10.	Sadhna Sharma (Smt.)
11.	Sanjay Kumar Jha
12.	Sarita Gulati (Smt.)
13.	Y. Y. Parate
14.	Sikha Das (Smt.)
15.	Satinder Jit Kaur (Smt.)
16.	Sunil Kumar Mandi
17.	E. Kujur (Smt.)
18.	Santosh Kumar
19.	S. Subramaniam
20.	Hriday Nand Sah
21.	Neelam Gandhi (Smt.)
22.	Pratibha Sharma (Smt.)
23.	D. K. Asija
24.	Justine Xalxo

2. The ad hoc appointments of the above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

- a. Ad hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade.
- b. Ad hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available either through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE) or until further orders. In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular Officers, from the date they (regular Section Officer) join duty in their respective cadre allotted to them by DOPT.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 25th November 2011

No. A-12011/6/2009-Admn.-II—In pursuance of O.M. No. 6/5/2011-CS-I(S), dated 04.10.2011 of Department of

Personnel & Training and O.M. No. A-32012/1/2011-CAS, dated 15.11.2011 of Cadre Administrative Section, Department of Expenditure, the President is pleased to appoint the following Assistants of Central Secretariat Services of Finance Cadre, as Section Officer on ad hoc basis in the Pay Band of PB-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs w.e.f. date mentioned against their names or until further orders :—

1.	Ms. Pinki	15.11.2011 (FN)
2.	Shri Pritam Singh	15.11.2011 (FN)
3.	Shri Joydev Samanta	15.11.2011 (FN)
4.	Smt. Sulakshana Mehta	15.11.2011 (FN)

2. The ad hoc appointments of above Assistants as Section Officer will be subject to the following terms and conditions :—

- (i) Ad hoc appointments, being a stop-gap arrangement, shall not confer on them any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS.
- (ii) Ad hoc arrangements will continue till regular candidates in the Section Officer grade are available through Seniority Quota/Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad hoc appointees not qualifying for regular appointment in any of these two categories, they will be reverted to the Assistant Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section Officers) join duty.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

The 29th November 2011

No. A-12011/18/2005-Admn.-II—In pursuance of Department of Expenditure (CAS) O.M. No. A-32014/1/2006-CAS (Vol.I) dated 09.11.2011 & 22.11.2011, the President is pleased to appoint the following regular PA's/Assistants as Section Officer in the Pay Scale of Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay) in PB-2 in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs on the basis of the result of the Combined Limited Departmental Competitive Exam, 2006, 2007 & 2008 with effect from the date mentioned against each :—

Name	Date of appointment
1	2
(i) Shri Arup Kumar Das, (S.L. Year 2008)	01.11.2011 (FN)
(ii) Smt. Alka Taneja, (S.L. Year 2008)	01.11.2011 (FN)

1	2
(iii) Shri S. K. Mandi, (S.L. Year 2006)	09.11.2011 (FN)
(iv) Ms. Neelam, (S.L. Year 2006)	16.11.2011 (FN)
(v) Shri Madhavendra Pratap Singh (S.L. Year 2007)	11.11.2011 (FN)
(vi) Shri Pramod Bhardwaj, (S.L. Year 2006)	14.11.2011 (FN)
(vii) Shri A. G. Subramanian, (S.L. Year 2007)	15.11.2011 (FN)
(viii) Shri Goutam Palit, (S.L. Year 2008)	21.11.2011 (FN)

2. The appointment of above mentioned officers to the grade of Section Officers of CSS shall be subject to the outcome of the following Court Cases :—

- (i) OA No. 1083/2007, MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UOI & Ors. in CAT, New Delhi.

ASHOK KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 25th November 2011

No. A-19012/182/2011-Estt.—On the basis of results of the Combined Limited Departmental Examination, 2006, 2007 & 2008, the President is pleased to appoint Shri Sant Ram, (Select List Year 2006/Rank No. 046), as Section Officer of CSS in the Department of Financial Services, Ministry of Finance with effect from the forenoon of 18th November, 2011 and until further orders.

2. The appointment of Shri Sant Ram to the Section Officers' Grade subject to the outcome of the following Court Cases :—

- (i) OA No. 1083/2007, MA No. 1171/2007 & MA of 2011 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI in CAT, New Delhi.

- (ii) OA No. 2136/2010 filed by Shri A. K. Nandy & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- (iii) OA No. 2469/2010 filed by Shri Vikas Tripathi & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- (iv) OA No. 1253/2009 filed by Shri A. Prakash & Ors. Vs. UOI in CAT, New Delhi.
- (v) OA No. 2584/2011 and MA No. 1987/2011 filed by Shri Prodip Kumar Mondal Vs. UOI & Ors. in CAT, New Delhi.

MRITUNJAY SINGH, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 29th November 2011

No. A-38015/5/2011-Ad.-I—Shri Vinod Chander Oberoi, Private Secretary (ad hoc) of CSSS Cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure stands retired on attaining the age of superannuation from Government service with effect from the afternoon of the 30th November, 2011.

2. His name will be struck off from the rolls of this Department from that date.

BIPLAP KUMAR ROY, Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

New Delhi, the 5th December 2011

No. PFG(768)/11-Admn.-II—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of subsection (1) of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorize Shri A. K. Nair, Assistant Director in the Office of Regional Director (Western Region), Ministry of Corporate Affairs, Mumbai for the purpose of the said section with effect from 21.11.2011, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

The 7th December 2011

No. PFG(773)/11-Admn.-II—In exercise of the powers conferred by Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Smt. V. Annapurna to officiate as Asstt. Official Liquidator in the Office of the Official Liquidator, Hyderabad with effect from 24.08.2011, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG(767)/11-Admn.-II—In exercise of the powers conferred by Section 448 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Sukumar Chakraborty to officiate as Asstt. Official Liquidator in the

Office of the Official Liquidator, Kolkata with effect from 24.08.2011, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

No. PFG(772)/11-Admn.-II—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government have appointed Shri Mrinal Kanti Barua, as Assistant Registrar of Companies in the Office of Registrar of Companies Cum Official Liquidator, Bilaspur with effect from 24.08.2011, until further orders.

R. K. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(DEPARTMENT OF COMMERCE)
DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 30th October 2011

No. 09/2011 (6/2370/2005/PEN/HRD-I/4713)—On attaining the age of superannuation Smt. Vasudha Kapoor, F.T.D.O. in this Office stands retired from Government service with effect from 30.11.2011 (AN).

R. S. BISHT, Dy. Dir. Gen. of Foreign Trade

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY &
PROMOTION

New Delhi-110107, the 5th December 2011

No. A-12023/1/2009-E-I—The President is pleased to appoint Shri Ayush Mani Tiwari, IPS (TN : 1997) as Officer on Special Duty to the Minister of Commerce & Industry (Shri Anand Sharma) at the level of Director (PB-4, in the Pay Scale of Rs. 37,400—67,000/- + Grade Pay of Rs. 8,700/-) with effect from 01.12.2011 (FN) and up to the balance period of his Central deputation tenure i.e. up to 25.02.2014 or on co-terminus basis with the Minister or till he ceases to function as Officer on Special Duty to the Minister or until further orders, whichever event occurs the earliest.

L. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 1st December 2011

No. A-38011/18/2011-Estt.—On attaining the age of superannuation, Smt. Sharda Madra, Section Officer (CSS) [SLY (SQ) : 2005], in the cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas, stands retired from Government service with effect from the afternoon of 30 November, 2011.

K. M. SINGH, Under Secy.

No. A-38011/17/2011-Estt.—On attaining the age of superannuation, Shri Vijay Kumar Sethi, Deputy Secretary

[CSS] [CSL No. 4034], in the cadre of Ministry of Petroleum and Natural Gas, stands retired from Government service with effect from the afternoon of 30 November, 2011.

K. M. SINGH, Under Secy.

The 2nd December 2011

No. A.-12011/3/2011-Estt.—In pursuance of the Department of Personnel & Training O.M. No. 1/4/2009-EO (MM.I) dated 24.11.2011, the President is pleased to extend the Central Deputation Tenure of Shri Asit Singh, IRS (IT : 1990), Private Secretary to the Minister of State (Petroleum and Natural Gas) (Shri R. P. N. Singh), for a period upto 31.12.2011.

K. M. SINGH, Under Secy.

The 7th December 2011

No. A.-32011/1/2010—The President is pleased to extend the ad hoc appointment of Smt. Arun Bala Anand, Library Information Assistant in the cadre of the Ministry of Petroleum & Natural Gas, as Assistant Library Information Officer, in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- plus Grade Pay of Rs. 4,600/- w.e.f. 01.12.2011 for a period of six months or until further orders, whichever is earlier.

2. The above appointment is purely on ad hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely for regular appointment or to claim seniority in the grade of Assistant Library Information Officer. The ad hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reasons thereof.

K. M. SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF CHEMICALS &
PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 29th November 2011

No. A.-19011/8/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Vijay Kumar as Section Officer in the Department of Chemicals & Petrochemicals, Ministry of Chemicals & Fertilizers with effect from the forenoon of 18 November, 2011 in PB-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/-.

R. K. KUREEL, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 9th December 2011

No. A.-12011/7/2009-Estt.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/1/2011-IES dated

22 November, 2011, the President is pleased to appoint Ms. Ganga Murthy, (IES : 76) as Principal Adviser (HAG Plus Grade) in the Department of Consumer Affairs in the pay scale of Rs. 80,000/- (fixed) with effect from the forenoon of 23 November, 2011 and until further orders.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

The 13th December 2011

No. A.-12011/10/2003-Estt.—In pursuance of Department of Personnel & Training's O.M. No. 4/2/2011-CS-II (A) dated 08 November, 2011 and in continuation of this Department's earlier notification dated 12 July, 2011, the term of ad hoc appointment of Shri Rajinder Singh and Smt. Neelam Sharma, Private Secretary in the Pay Band of Rs. 9,300—34,800/- (PB-2) plus Grade and of Rs. 4,800/- is extended for a further period upto 31.03.2012 or till regular PS of CSSS become available, whichever is earlier.

2. The ad hoc appointment shall not confer on the appointees any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of PS for regular appointment or to claim seniority in the PS Grade of CSSS. Ad hoc appointment will be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

M. A. CHAUDHURY, Under Secy.

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 30th November 2011

No. A.-12011/01/96-Estt.—The President is pleased to extend the appointment of Dr. Maharaj Kishan Bhan as Secretary, Department of Biotechnology, Ministry of Science and Technology on Contract basis for a period of one year beyond 30 November, 2011, on the terms and conditions he is entitled to in his present position.

K. M. KUTTY, Dy. Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 24th November 2011

No. 17013/06/2011-IFS.-II—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect, the following officers of the State Forest Service of Andhra Pradesh to the Indian Forest Service on the basis of Select List for the year 2009 and allocate them to Andhra Pradesh

cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966:

Sl. No.	Name	Date of Birth
1	Sh. T. V. Subba Reddy	01.07.1957
2	Sh. S. Srikantanatha Reddy	25.08.1974

VIVEK SAXENA, Dir.

New Delhi-110003, the 23rd November 2011

No. A.-12013/04/2005-P-II (.)—Consequent upon their qualifying the Section Officers Grade Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2006, 2007 and 2008 held by the Union Public Service Commission and on being nominated to the Ministry of Environment and Forests vide DoPT's O.M. No. 6/3/2011-CS-I (S) dated 27 October, 2011, the President is pleased to appoint the following officials as Section Officers of the CSS on regular basis in Pay Band-2, Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,800/- in the Ministry of Environment and Forests with effect from the dates indicated against their names:—

Sl. No.	Name	Select List Year	Date of appointment
1.	Sh. Amit Kumar Singh	2006	16.11.2011 (F/N)
2.	Sh. Manoj Kumar Pathak	2007	14.11.2011 (F/N)
3.	Sh. Ajay Joshi	2007	11.11.2011 (F/N)

2. Appointment of the officers stated above shall be subject to the outcome of the Court cases mentioned in the above DoPT's O.M. dated 27 October, 2011.

M. K. RAI, Under Secy.

New Delhi-110003, the 24th November 2011

No. A.-11013/01/2011-P-II—The President is pleased to appoint Shri K. G. Shivakumar as First P.A. to the Minister of State (I/C) for Environment and Forests (Smt. Jayanthi Natarajan) in the Pay Band-2 (Rs. 9,300—34,800/-) with Grade Pay of Rs. 4,800/- with effect from the forenoon of 14-09-2011.

2. The appointment of Sh. K. G. Shivakumar will be on co-terminus basis and at the pleasure of the Minister of State (I/C) for Environment and Forests.

MANOJ KUMAR RAI, Under Secy.

New Delhi-110510, the 24th November 2011

No. 17013/04/2009-IFS.-II—In exercise of powers conferred by Sub-Rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulation, 1966, the President is pleased to appoint with immediate effect the undermentioned officers of the State Forest Service of Madhya Pradesh to the Indian Forest Service against existing vacancies and to allocate them to the Madhya Pradesh Cadre of the Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Act, 1966.

Select list of 2008-A

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.	Shri Devendra Kumar Paliwal	01.07.1963
2.	Dr. Shailendra Kumar Gupta	27.02.1963
3.	Shri Khan Shafi Akhtar	07.08.1964
4.	Shri Mahendra Singh Sisodia (SC)	04.02.1962
5.	Shri Lakhan Lal Uikay (ST)	17.06.1965
6.	Shri Lalji Mishra	15.12.1961
7.	Shri Anil Kumar Singh	01.03.1965
8.	Shri Brijendra Jha	03.08.1966
9.	Shri Ramesh Chandra Vishvakarma	30.06.1965
10.	Shri Ajay Kumar Pandey	28.06.1965

2. The appointment of the above Officers in the Select List is subject to the following:—

- W.P. No. 17421/2010 filed by Shri S.S. Uddey,
- W.P. No. 17423/2010 filed by Shri P.P. Titare,
- W.P. No. 18517/2010 (S) filed by Shri Mukund Narayan Trivedi, and
- W.P. No. 12703/2010 filed by Shri Atul Mumar Mishra.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 2nd December 2011

No. A-12025/34/2011-CHS.III—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Jatin Talwar to the post of Assistant Professor in the speciality of Orthopaedic-Surgery in the Teaching Specialist Sub-cadre of Central Health Service, on probation, with effect from the forenoon of 10th May, 2011 and until further orders.

LALIT KUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH

New Delhi-110108, the 8th December 2011

No. A-12025/5/2009-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Kashika to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the Scale of Pay of Rs. PB-3 (15,600—39,100/-+ Grade Pay Rs. 5,400/-) in the temporary capacity with effect from forenoon of the 05.10.2011 until further orders. Dr. Kashika is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital, New Delhi.

M. K. SHARVAR, Under Secy.

DEPTT. OF HEALTH & F.W.

New Delhi-110108, the 23rd November 2011

No. A-32014/03/2011-Estt.I—Consequent upon inclusion of their name in the Select List in the Departmental Examination Quota, the President is pleased to appoint the following Officers in the grade of Section Officer of CSS in the Ministry of Health & Family Welfare on regular basis with effect from the dates shown against each:—

- Shri Manjit Singh (SL-2007) 18.11.2011 (FN)
- Shri Pradip Kumar Bandyopadhyay (SL-2008) 22.11.2011 (FN)

2. The appointment of the above Officers are subject to the outcome of the Court Cases mentioned in the para 5 of the DoPT's Office Memorandum No. 6/3/2011-CS.I (S), dated 27.10.2011.

ANIL KUMAR, Under Secy.

The 2nd December 2011

No. A-11013/3/2011-Estt.I(pt)—The President is pleased to appoint Shri Biman Kumar Barua, a non-service personnel, as Assistant Private Secretary (PB-2, Grade Pay Rs. 4,800/-) to the Minister of State for Health and Family Welfare (Shri Sudip Bandyopadhyay) with effect from the forenoon of 1st December 2011.

2. Appointment of Shri Biman Kumar Barua will be on co-terminus basis or till the Minister requires his services or until further order, whichever is earlier.

ANIL KUMAR, Under Secy.

New Delhi, the 30th November 2011

CORRIGENDUM

No. A-12026/2/2010-D(DFQC)—In Ministry's Notification of even No. dated 2nd November, 2011 regarding appointment on promotion in respect of Dr. Nandita Saha

to the Post of Senior Scientific Officer (Reference Standard), Central Drugs Laboratory, Kolkata with effect from 18th October 2011 and until further orders.

For the revised Pay structure “Rs. 15,600—39,000/- + Grade Pay Rs. 6,600/-” please read “Rs. 15,600—39,100/- + GP Rs. 6,600/-”.

SUDHIR KUMAR, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 12th December 2011

No. 19011/26/2011-Admn.I—In view of the recommendation of the Union Public Service Commission vide their letter No. F. 1/86(35)/2010-R.I dated 14.10.2011, the President is pleased to appoint Dr. Aruna Sharma as Livestock Officer in the Scale of Pay of PB-3 Rs. 15,600—39,100/- with the Grade Pay of Rs. 5,400/- + N.P.A. (as admissible) w.e.f. the forenoon of the 2nd December, 2011 in the Department of Animal Husbandry Dairying and Fisheries.

SUBHASH CHAND KHATRI, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 9th November 2011

No. 5-3/2011-Admn.—In compliance of DoPT's Om No. 6/5/2011-CS-I(S) dated 4th October, 2011, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of CSS working in this Ministry as Section Officer of CSS purely on temporary and ad hoc basis with effect from the dates mentioned against their names:—

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Smt. Suman Katyal | 08.11.2011 (FN) |
| 2. Shri J.S. Rana | 08.11.2011 (FN) |
| 3. Shri G.H. Muralidhar | 08.11.2011 (FN) |

NAVEEN YADAV, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi-110001, the 30th September 2011

No. A-12022/1/2005-Estt.I—On completion of her tenure of Central Deputation, the President is pleased to repatriate Ms. Reena Garg, IA & AS (95), Director, from the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. the afternoon of 02.10.2011.

2. Further the services of Ms. Reena Garg will stand placed at the disposal of her parent cadre i.e. the comptroller & Auditor General of India.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

The 3rd October 2011

No. A-12022/1/2005-Estt.-I—On completion of his tenure of Central Deputation, the President is pleased to repatriate Shri D.K. Singh, IRTS (88), Director, from the Ministry of Social Justice and Empowerment w.e.f. the afternoon of 03.10.2011.

2. Further, the services of Shri D.K. Singh will stand placed at the disposal of his parent cadre i.e. the Ministry of Railways.

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

The 3rd November 2011

No. A-32013/03/2007-Estt.—Consequent upon his inclusion in the Select List of 2005 for Selection Grade (Deputy Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) and posting in this Ministry on promotion as Deputy Secretary on regular basis vide Department of Personnel and Training's O.M. No. 4/8/2011-CS-I(D) dated 19th September, 2011, the President is pleased to appoint Shri M.R. Bali, Under Secretary of CSS to the Selection Grade of CSS (Deputy Secretary) in the Ministry of Social Justice & Empowerment, w.e.f. 04.10.2011 (FN).

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

The 17th Novemebr 2011

No. A-12022/2/2005-Estt.-I—Consequent upon his empanelment for holding the post of Joint Secretary or equivalent under the Central Staffing Scheme, vide Department of Personnel & Training's Order No. 21/6/2010-CS.I(D) Vol. II dated 4th September, 2011, the President is pleased to appoint Shri R.S. Meena, a substantive Senior Selection Grade Officer of Central Secretariat Service, as Joint Secretary (in situ) (PB-4, Grade Pay Rs. 10,000/-) in this Ministry w.e.f. 8th November, 2011

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi, the 30th November 2011

No. 19011/13/2007-Estt. —On attaining the age of superannuation Shri R. Ramamurthy, Deputy Secretary in the Ministry of Tribal Affairs retires from the Government Service on superannuation with effect from the afternoon of 30.11.2011.

A.K. SAHA, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & IT

(DEPARTMENT OF POSTS)

New Delhi-110001, the 31st October 2011

No. 1-26/2011-SPG—Ms. Manjula Prasher, IPoS-1976, has assumed the office of Secretary, Department of Posts,

Ministry of Communications & Information Technology and Chairperson, Postal Services Board and Director General, Postal Services on 31.10.2011(AN) in pursuance of Appointments Committee of the Cabinet, DoP&T communication no. 24/7/2011-E.O. (SM. I) dated 28.10.2011.

RAJ KUMAR, Director (Staff)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 7th December 2011

No. E(GP)2008/3/6—The President is pleased to appoint the undermentioned 39 Group 'B' Officers of Signal & Telecommunication Department of Indian Railways, to Group 'A'/Junior Scale of Indian Railway Service of Signal Engineers (IRSSE), with effect from 12.10.2011 on the Railways mentioned as under :—

PANEL FOR 2009-10

Names of the Officers

S/Shri

CENTRAL RAILWAY

1. Anilkumar N. Gai
2. D. B. Gulave

EAST COST RAILWAY

1. Tapas Lahiri

EAST CENTRAL RAILWAY

1. Aishwarya Kumar
2. Krishna Deo Singh

EASTERN RAILWAY

1. Amit Kr. Kamila
2. Harihar Pal
3. T. K. Chakraborty
4. Atanu Kr. Dey
5. Nilkanta Bose
6. Sankar Prasad Soren (ST) : Promoted against ST vacancy

NORTH CENTRAL RAILWAY

1. R. V. Singh
2. A. P. Singh

NORTH EAST RAILWAY

Bekaru Arya (SC) : Promoted against SC vacancy

NORTHEAST FRONTIER RAILWAY

P. K. Deka

2. G. G. Roy
3. S. K. Mitra
4. Jyotirmoy Roy

NORTHERN RAILWAY

1. V. K. Verma
2. Ram Naresh (SC) : Promoted against SC vacancy

NORTH WESTERN RAILWAY

1. Sunil Joshi

SOUTH CENTRAL RAILWAY

1. K. Rama Krishna Rao
2. S. K. Peer Bhasha
3. K. Babu Rao (SC) : Promoted against SC vacancy

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY

1. M. K. Srivastava
2. Debjit Das (SC) : Promoted against SC vacancy

SOUTH EASTERN RAILWAY

S. K. Moitra (SC) : Promoted against SC vacancy

SOUTHERN RAILWAY

1. Narayanan Kutti
2. L. N. Sivanath Babu
3. A. Sankaramurthy

WEST CENTRAL RAILWAY

1. Mahmood Alam
2. A. K. Sharma
3. Harish Chandra Yadav
4. V. K. Katiyar
5. Bigu Sah (ST) : Promoted against ST vacancy
6. Hira Singh Meena (ST) : Promoted against ST vacancy

WESTERN RAILWAY

1. N. V. Joseph
2. Yogendra Singh (SC) : Promoted against SC vacancy
3. Raj Kumar (SC) : Promoted against SC vacancy

V. K. GUPTA, Secy.
(Railway Board)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 1st December 2011

No. A-19011/2/2011-Estt.—The President is pleased to appoint Shri S. S. Sharma as Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) of Central Secretariat Stenographer Service (CSSS) on inclusion in the Select List Year 2010 (Part) on regular basis in Ministry of Shipping with effect from 21.11.2011 (F/N) till further orders.

ANURAG SHARMA, Under Secy.

The 5th December 2011

No. A-38012/2/2011-Estt.—Shri Ravi Kiran Chhibber, Chartering Officer in the Chartering Wing of the Ministry of Shipping, has retired from Government service w.e.f. 30.11.2011 (AN) on attaining the age of superannuation.

ANURAG SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 8th December 2011

No. 15/2011, File No. 19/20/2011-Estt. I—Consequent upon attaining the age of superannuation, the following Junior Administrative Grade Officers of the Central Water Engineering (Group 'A') Service retired from Government service from the dates mentioned against each :—

Sl. No.	Name	Date of retirement from Service
1.	Sh. G. P. Mathur	30.06.2011 (AN)
2.	Sh. D. N. Singh	31.10.2011 (AN)

NARENDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 23rd November 2011

No. A-12025/2/2010-PPP—Consequent upon his being recommended by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri J. B. Ravinder, presently working as Deputy Adviser (PHE) on ad-hoc basis to the post of Deputy Adviser (PHE) on regular basis in the Central Public Health and Environmental Engineering Organisation, Ministry of Urban Development in the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Grade Pay Rs. 7,600/- with immediate effect, until further orders.

JITENDER KUMAR, Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 1st November 2011

No. A-32014/01/2008-Admn. I (Pt.)—The President is pleased to extend the appointment of the following Assistants of CSS Cadre of the Ministry of Labour & Employment to the

grade of Section Officer (Group 'B'/Gazetted) (Pay Band-2 : Rs. 9,300—34,800/- Grade Pay Rs. 4,800/-) on ad-hoc basis in this Ministry for a period upto 31.12.2011, in pursuant to DoP&T's O. M. No. 6/5/2011-CS-I (S), dated 04.10.2011 :—

S. No.	Name	Select List Year
	S/Shri/Smt./Ms.	
1.	J. K. Kashyap	1992
2.	B. D. Sharma	1992
3.	Sunita Sharma	1992
4.	S. P. Goyal	1992
5.	M. R. Chandwara (SC)	1992
6.	N. K. Joshi	1993
7.	I. D. Sharma	1993
8.	Prem Chopra	1993
9.	R. K. Trehan (SC)	1993
10.	Naresh Kumar	1994
11.	Rita Singh	1994
12.	Om Prakash (SC)	1994
13.	Sheesh Ram (SC)	1994
14.	V. C. Tripathi	1995
15.	Saroj Bala Bhatia	1995
16.	Anil Kumar Sharma	1995
17.	Vinod Kumar (SC)	1995
18.	Yogendra V. Ranadive (ST)	1995
19.	Jamna Dass (SC)	1995
20.	B. T. Chichulkar (ST)	1998
21.	Virender Kumar	1999

2. The appointment of the above named Assistants to the post of Section Officers on ad-hoc basis is subject to the following conditions :—

- The period of ad-hoc promotion would be up to 31.12.2011, or till the regular Section Officers are made available or until further orders, whichever is earlier.
- The ad-hoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List of

Section Officers for regular appointment or to claim Seniority in the Section Officers Grade of CSS.

Officers) join duty in their respective cadre units allotted to them by the DOP&T.

PRADEEP GAUR, Under Secy.

- (c) Ad-hoc appointment would continue till regular candidates in Section Officer Grade are available either through Seniority Quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the ad-hoc appointees not qualifying for regular appointment in either of these two categories, they shall be reverted to the Assistant's Grade on availability of such regular officers from the date they (regular Section

The 3rd November 2011

No. A-12025/01/2011-Adm. I—The President is pleased to appoint Sh. Shib Kumar Sadhu, a regular Section Officer of CSS to Grade-I (Under Secretary) of the Cadre purely on ad-hoc basis until further orders with effect from 11.08.2011 (FN).

PRADEEP GAUR, Under Secy.